

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उपक्रम)
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.
(An ISO 9001:2015 Certified Company)
601-603, एडी जेड, नवकोन विमान, एडी जेड, विमानमार्ग-03, गेट 03, एडवर्ड रोड/39, चिनाई-611008/98903915
नीलामी/निविदा सूचना सं. **CON/SA/2020-21/03/40/29827 and 29828** दिनांक: 05.02.2021
ऑनलाइन सार्वजनिक नीलामी विक्री
कॉन्कर हेतु प्रस्ताव, विद्यावाचस्पल और मुद्रा में निविदा कागजात टर्मिनलों में उपलब्ध निम्नलिखित/दायालवित आवेदनिकाओं, अतिरिक्त प्रस्ताव खाली कंटेनर और स्कोर पर्यवेक्षण की ऑनलाइन नीलामी विक्री आमंत्रित करता है। आवेदनिकाओं की सार्वजनिक नीलामी सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 के प्रावधानों के तहत आयकर/शुल्कों को बिना किसी भी सूचना के आयोजित की जाएगी। मानवीय व्यावहारिक के तहत या सख्त अपील वाले मामलों वाले माल की विक्री के खिलाफ मान्य अपील, यदि कोई हो, इस नोटिस के जारी होने से 7 दिनों के भीतर कॉन्कर को प्रस्तुत की जा सकती है, अन्यथा यह माना जाएगा कि आवेदनिका/शुल्कों को कोई आपत्ति नहीं है और माल को बिना किसी भी नोटिस के विक्री किया जा सकता है। ऑनलाइन नीलामी मैसर्स कॉन्कर के अधिकृत ई-कॉमर्स वेबसाइट **एमएसडीसी लि.** के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। कंटेनर/स्कोर का निविदा संकेतिक कॉन्कर टर्मिनलों में 05.02.2021 से 12.02.2021 तक कार्य दिवसों में कार्य के समय के दौरान होगा। ऑनलाइन नीलामी 15.02.2021 को है। निविदा के लिए कृपया www.conindia.com या www.eprocure.gov.in या www.mstcecommerce.com पर लॉग ऑन करें या कॉन्कर, विमानमार्ग, 040-27800938/39 या मैसर्स एएसटीसी लि. को कार्यालय में भी पी. पी. सेजा (8100025841) या श्री विजय काला (8179561100), फोन: 040-23301039, ई-मेल: gpteja@mstcindia.co.in, vkala@mstcindia.co.in से संपर्क करें। साथ ही, कृपया ध्यान दें कि प्रस्ताव, यदि कोई हो, ऑनलाइन नीलामी की तारीख से पहले उपरोक्त वेबसाइटों पर ही दिया जाएगा। इसलिए बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित रूप से वेबसाइट देखें।
हस्ता./- जीजीए/के.ए. (सहिव)

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
एएसए1/सजोप्र/आरएफपी202020/सजोप्र 02/02/2021
प्रस्ताव हेतु अनुरोध (RFP)
बैंक ऑफ महाराष्ट्र घोषाघडी समाधान की आपूर्ति, संस्थापना और रखरखाव के लिए पात्र बोलीदाताओं से प्रस्ताव आमंत्रित करता है। विवरण बैंक की वेबसाइट <https://www.bankofmaharashtra.in> पर 03/02/2021 से निविदा खंड में उपलब्ध होंगे।
बैंक बिना कोई कारण बताए आरएफपी प्रक्रिया को रद्द करने या पुनर्निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी,
समन्वित जोखिम प्रबंधन

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
CIN: L74899DL1970GOI005276 GST NO. 07AAACH0632A1ZF
पंजीकृत कार्यालय: हडको भवन, कोर ए 7ए, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003, फोन नं.: 011-24625308, वेबसाइट: www.hudco.org
नोटिस
भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के नियम 47 के साथ पठित नियम 29 के अनुपालन में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों (एकल एवं समेकित) पर विचार करने तथा उनके अनुमोदन के लिए हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल को बैठक का आयोजन 11 फरवरी 2021 को किया जाएगा। नोटिस www.hudco.org, www.bseindia.com; www.nseindia.com वेबसाइटों पर भी उपलब्ध है।
कृते हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
हस्ता./-
हरिशी कुमार शर्मा
कंपनी सचिव

SATIN CREDITCARE NETWORK LIMITED
Regd. Office: 5th Floor, Kundan Bhawan, Azadpur Commercial Complex, Azadpur, Delhi-110033
Corporate office: Plot No- 492, Udyog Vihar, Phase - III, Gurugram, Haryana-120116, India
CIN: L65991DL1990PLC041796, Phone: (124) 4715 400
Website: www.satincare.com E-mail: secretarial@satincare.com
NOTICE
Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the "Listing Regulations"), NOTICE is hereby given that meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, February 12, 2021, *inter-alia*, to consider and approve the Unaudited (Standalone & Consolidated) Financial Results of the Company for the quarter/period ended December 31, 2020 in accordance with Regulation 33 of the Listing Regulations.
A copy of this Notice and the Financial Results shall also be available at the Company's website www.satincare.com and websites of the Stock Exchanges' BSE: www.bseindia.com and NSE: www.nseindia.com.
By order of the Board of Directors
For **Satin Creditcare Network Limited**
Sd/-
Adhish Swaroop
Place: Gurugram
Date: February 04, 2021 Company Secretary & Compliance Officer

YASH PAKKA
Packaging with a Soul
YASH PAKKA LIMITED
(Formerly Yash Papers Limited)
Regd Office: 2nd Floor, 24/57, Birhana Road, Kanpur -208001, Uttar Pradesh
Corp Office: Yash Nagar, Ayodhya - 224135, Uttar Pradesh
CIN: L2431UP1981PLC005294 I T: +91 5278 258474
E: connect@yashpakka.com | Website: www.yashpakka.com
NOTICE
Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 10th February, 2021 *inter-alia*, to consider and approve Unaudited Financial Result of the Company for the 3rd quarter and nine months ended 31st December, 2020.
Further in pursuance of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, Trading Window shall remain closed from 1st January, 2021 till 48 hours after declaration of Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December, 2020 (both days inclusive).
The information in the above notice is also available on the website of the Company www.yashpakka.com and also on BSE Limited www.bseindia.com.
for **Yash Pakka Limited**
Sd/-
Bhavna Patel
Company Secretary & Compliance Officer
Date: 03.02.2021
Place: Ayodhya

खबरें जो बहाए आपकी तरक्की की रफ्तार
SMS reaches to 57575 or email order@bmail.in
Business Standard
Insight Out

SBI
भारतीय स्टेट बैंक
शेयर एवं बॉन्ड विभाग, कॉर्पोरेट केंद्र, 14वां तल, स्टेट बैंक भवन, नरीमन प्वाइंट, मुंबई - 400 021, महाराष्ट्र। दूरभाष: 022-22740841-6/22742403/22741431
वेबसाइट: <https://bank.sbi> | ई-मेल: investorcomplaints@sbi.co.in
भारतीय स्टेट बैंक के शेयरधारकों से अपील
भौतिक शेयरों को डीमेट प्रारूप में बदलना एवं डाटा अद्यतन करना
1. जोखिम से बचने के लिए अपने भौतिक शेयरों को डीमेट में बदलें
यदि आपके शेयर भौतिक रूप में हैं तो, कृपया गम होने/खराब होने/इशर-उधर होने के जोखिम से बचने के लिए तुरंत अपने भौतिक शेयरों को डीमेट रूप में बदल दें। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ने निर्धारित किया है कि शेयरों के अंतरण के अनुरोध पर तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी, जब तक ये निशेधगार (एनएसडीएल/सीडीएसएल) के पास डीमेट रूप में न हों। डीमेट खाता खोलने के लिए, कृपया अधिकारिक रूप से वैध केवाईसी दस्तावेजों यथा (क) पैन (ख) आधार कार्ड (ग) पासपोर्ट (घ) मतदाता कार्ड (ङ) ड्राइविंग लाइसेंस (च) रद्द किए गए चेक के साथ निशेधगार प्रतिभागी से तुरंत संपर्क करें और अपने भौतिक शेयरों को डीमेट रूप में बदलवाएं। यदि आपके पास पहले से ही डीमेट खाता है, तो डीमेट रूप में शेयरों को बदलने के लिए कृपया 1 रूप के अंकित मूल्य का एसबीआई शेयर प्रमाणपत्र अपने निशेधगार प्रतिभागी (डीपी) को प्रस्तुत करें।
2. एक रूप के अंकित मूल्य के शेयर प्रमाणपत्र प्राप्त करने की कार्यविधि
दिनांक 22 नवंबर 2014 से 10 रूप के अंकित मूल्य के शेयरों को 1 रूप के अंकित मूल्य के 10 इंडिटी शेयरों में विभाजित करने के परिणामस्वरूप, 1 रूप के अंकित मूल्य के शेयर, सदस्यों के रजिस्टर में उपलब्ध पते पर पंजीकृत डाक से भेजे गए। गलत/अपूर्ण पता, पता उपलब्ध न होने आदि के कारण डाक विभाग द्वारा लौटाए गए पत्रों के लिए हमने पंजीकृत डाक, जहाँ कहीं भी मोबाइल नंबर/ई-मेल आईडी उपलब्ध हों पर एएसएस/ई-मेल से अनुस्मारक भेज दिए हैं। हम 10 रूप के अंकित मूल्य के भौतिक रूप में शेयर प्रमाणपत्र रखने वाले तथा 1 रूप के अंकित मूल्य के शेयर प्राप्त न करने वाले सभी शेयरधारकों से निम्नलिखित दस्तावेज हमारे पंजीकरण एवं शेयर अंतरण एजेंट को प्रस्तुत करने का अनुरोध करते हैं, जिनका पता नीचे दिया गया है:
I. विधिवत मरा हुआ मूल सूचना फार्म (बीआईएफ)
II. स्वयं द्वारा सत्यापित केवाईसी की प्रतियाँ, जिनसे पहचान, पते का प्रमाण, फोटो दिखता हो।
III. पैन कार्ड की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रतियाँ
IV. 10 रूप के अंकित मूल्य का मूल शेयर प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हो तो।
3. सभी सूचनाएँ एवं लाभों का प्राप्त करने के लिए अपना केवाईसी डाटा अद्यतन करें
कृपया हमारे पंजीकरण एवं शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) जिनका पता नीचे दिया गया है, को मूल सूचना फार्म प्रस्तुत कर केवाईसी डेटा, ईमेल आईडी, पता, मोबाइल नंबर एवं बैंक खाता विवरण अद्यतन करा लें। डीमेट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे सम्बद्ध निशेधगार प्रतिभागी से उनका अद्यतन करा लें, ताकि सूचनाएँ आसानी से प्राप्त हो सकें और विभेगण अबाधित रूप से चले।
4. बैंक के पंजीकरण एवं शेयर अंतरण एजेंट को प्रस्तुत करने हेतु मूल सूचना फार्म डाउनलोड करें
मूल सूचना फार्म (बीआईएफ) को हमारी वेबसाइट <https://bank.sbi/documents/17836/21502/290120-Basic-Information+Form+BIFF.pdf> से डाउनलोड किया जा सकता है।
5. प्रश्न/संदेह एवं दस्तावेज भेजने के लिए हेल्पलाइन
किसी भी प्रकार के प्रश्न/संदेह के लिए कृपया हमारे पंजीकरण एवं शेयर अंतरण एजेंट जिनका पता नीचे दिया गया है अथवा ऊपर दिए गए फोन नंबर/ई-मेल आईडी पर भारतीय स्टेट बैंक के निवेशक शिकायत कक्ष से संपर्क करें। विस्तृत दिशानिर्देशों के लिए कृपया bank.sbi--Investor Relations--Shareholder Bondholder Information पर जाएँ।
मेसर्स अलंकित आइडनॉमेट्स लिमिटेड, 205 - 208 अनारकली कॉम्प्लेक्स, झंडेवाला एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110 055, ई-मेल: sbi.ign@alankit.com, संपर्क: 72900 71335.
स्थान: मुंबई
दिनांक: 05.02.2021
भारतीय स्टेट बैंक के लिए
महाप्रबंधक (शेयर एवं बॉन्ड)

OFFER OPENING PUBLIC ANNOUNCEMENT UNDER REGULATION 18(7) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED ("SEBI SAST REGULATIONS") AND CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT, FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

OVOBEL FOODS LIMITED
Registered Office: Ground Floor, No. 46 Old No. 32/1, 3rd Cross, Aga Abbas Ali Road, Ulsoor, Bangalore - 560 042
Tel. No.: +91 80 2559 4145-46, Website: www.ovobelfoods.com
CIN: L85110KA1993PLC013875

Open Offer for acquisition of upto 27,30,208 equity shares of face value Rs. 10/- each of Ovobel Foods Limited (the "Target Company") representing 26.00% of the total Paid-up and Voting Share Capital of the Target Company from the Eligible Shareholders (as defined below) by Mr. M P Satish Babu ("Acquirer 1"), Mr. Sharad M S ("Acquirer 2"), Mrs. Sukanya Satish ("Acquirer 3"), Mr. Syed Fahad ("Acquirer 4") and Mr. Bhavihal Gurusiddappa Channappa ("Acquirer 5"), collectively referred to as "Acquirers", pursuant to and in compliance with the requirements of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended from time to time ("SEBI SAST Regulations") (the "Open Offer" / "Offer").

This offer opening public announcement and corrigendum to Detailed Public Statement is being issued by Sundae Capital Advisors Private Limited ("Manager to the Offer"), for and on behalf of the Acquirers, pursuant to and in accordance with Regulation 18(7) of the SEBI SAST Regulations in respect of the Offer ("Offer Opening Public Announcement cum Corrigendum"). The Detailed Public Statement ("DPS") with respect to the aforementioned Open Offer was published on October 29, 2020.

- The Offer Opening Public Announcement cum Corrigendum is to be read together with:
- the public announcement in connection with the Offer, made by the Managers to the Offer on behalf of the Acquirers to BSE on October 22, 2020 ("Public Announcement");
 - the detailed public statement in connection with the Offer, published on October 29, 2020 in the following newspapers: i) Business Standard (English - all editions); ii) Business Standard (Hindi - all editions); iii) Vardha Bharathi (Kannada -Bengaluru Edition) and iv) Mumbai Lakshadweep (Marathi - Mumbai Edition) ("Detailed Public Statement");
 - the letter of offer dated January 30, 2021 in connection with the Offer ("Letter of Offer")
- Capitalised terms used but not defined in this Offer Opening Public Announcement cum Corrigendum shall have the meaning assigned to such terms in the Letter of Offer.
- Offer Price: The Offer Price is Rs. 49.41 (Rupees Forty Nine and Paise Forty One Only) per Equity Share. There has been no revision in the Offer Price. For further details relating to the Offer Price, please refer to Clause 6 "Offer Price and Financial Arrangements" on page 22 of the Letter of Offer.
 - Recommendations of the Committee of Independent Directors of the Target Company: The Committee of Independent Directors of the Target Company ("IDC") published its recommendation on the Offer on February 04, 2021 in the same newspapers where the Detailed Public Statement was published. The relevant extract of the recommendation of the IDC is given below:

Members of the Committee of Independent Directors (Please indicate the chairperson of the Committee separately)	Mr. Bharath Venkatesh, Chairman Ms. Priyanka Rajora, Member Ms. Pooja Jain, Member
Recommendation on the Open Offer, as to whether the offer is fair and reasonable	The Open Offer at Rs. 49.41 per Equity Share by the Acquirers is in line with the provisions of Regulation 8(2) of the SEBI SAST Regulations and to that extent is fair and reasonable. However the Shareholders should independently evaluate the offer and take the informed decision in their best interest.
Summary of reasons for recommendation (IDC may also invite attention to any other place, e.g. company's website, where its detailed recommendations along with written advice of the independent adviser, if any can be seen by the shareholder)	IDC of Ovobel Foods Limited has reviewed the following documents as issued by the Acquirers in connection with the Open Offer: a) The Public Announcement in connection with the Open Offer dated October 22, 2020 b) The Detailed Public Statement Published on October 29, 2020 c) Letter of Offer dated January 30, 2021 The IDC further noted that the shares of the Company are infrequently traded within the meaning of explanation provided in Regulation 2(i) of the SEBI SAST Regulations and the Acquirers have obtained valuation from a Registered Valuer (Securities or Financial Assets). Keeping in view the above facts IDC is of opinion that open offer price is fair and reasonable.
Details of Independent Advisors, if any.	None

- This is not a competing offer in terms of Regulation 20 of the SEBI SAST Regulations. Further, there has been no competing offer as on the date of the Letter of Offer. The last date for making such competing offer was November 23, 2020, as prescribed under Regulation 20 of the SEBI SAST Regulations.
- The dispatch of the Letter of Offer to the Eligible Shareholders of the Target Company holding Equity Shares on the Identified Date i.e. Friday, January 22, 2021 has been completed by February 03, 2021 through electronic mode to the shareholders whose e-mail ids are available with the Target Company and through speed post / registered post at the address registered in India for all the remaining shareholders. The Acquirers are adhering to the existing prescribed framework of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeover) Regulations, 2011 for dispatch of Letter of Offer.
- The Letter of Offer and the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement is also available on the website of SEBI (www.sebi.gov.in), the Registrar to the Offer (www.integratedindia.in), the Manager to the Offer (www.sundaecapital.com) and BSE (www.bseindia.com). In case of non-receipt of the Letter of Offer, the Eligible Shareholders, including those who have acquired Equity Shares after the Identified Date, if they so desire, may download the Letter of Offer or the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement from the websites indicated above.
- Instruction to Eligible Shareholders
All the Eligible Shareholders of the Target Company, holding shares in physical and dematerialized form, registered or unregistered are eligible to participate in this Open Offer at any time during the period from Offer Opening Date to Offer Closing Date ("Tendering Period") for this Open Offer.
(a) In case the Shares are held in Dematerialised Form: The Eligible Shareholders who are holding Equity Shares in dematerialised form and who desire to tender their Equity Shares in this Offer shall approach their respective Selling Broker indicating to their Selling Broker the details of Equity Shares that such Eligible Shareholder intends to tender in this Offer as per the procedure specified in Clause 8.10 on page 27 of the Letter of Offer.
(b) In case the Shares are held in Physical Form: Eligible Shareholders holding Equity Shares in physical form may participate in the Open Offer through their respective Selling Broker by providing the relevant information and documents as mentioned in Clause 8.11 on page 28 of the Letter of Offer.

(c) In case of non receipt of the Letter of Offer: The Eligible Shareholder may tender Equity Shares under the Offer in terms of the procedure specified in Clause 8.12 on page 29 of the Letter of Offer.
An Eligible Shareholder may participate in the Open Offer by providing his/her/its application in writing on a plain paper signed by all Eligible Shareholders (in case of joint holding) stating name, address, folio number, number of Equity Shares held, Equity Share certificate number, number of Equity Shares tendered for the Offer and the distinctive numbers thereof, enclosing the original Equity Share certificate(s), copy of Eligible Shareholder's PAN card(s) and executed share transfer form in favour of the Acquirer. Eligible Shareholders must ensure that the plain paper application, along with the TRS and requisite documents, reach the Registrar to the Offer not later than 2 (two) working days from the closure of the Offer (i.e. February 24, 2021) by 5.00 p.m. If the signature(s) of the Eligible Shareholders provided in the plain paper application differs from the specimen signature(s) recorded with the Registrar of the Company or are not in the same order (although attested), such plain paper applications are liable to be rejected under this Offer.
Eligible Shareholders have to ensure that their order is entered in the electronic platform of the Designated Stock Exchange, i.e. BSE, which will be made available by BSE, before the closure of the Tendering Period.
Further, Eligible Shareholders are required to refer to Clause 8 of the Letter of Offer ("Procedure for Acceptance and Settlement") in relation to the detailed procedure for tendering their Equity Shares in the Offer and are required to adhere to and follow the procedure outlined therein.

7. Revision in the Detailed Public Statement
7.1 Disqualification of Acquirer 1 and Acquirer 3 as Directors by Ministry of Corporate Affairs
Clause 1.1 (d) of the DPS shall be read in conjunction with following note:
"Note: Acquirer 1 was a director in Indovo Foods Private Limited (CIN: U15499KA2009PTC049654), a closely held company. The said company could not file the annual returns within the prescribed due dates and therefore the directors were disqualified for further appointment. Thereafter the said company has been struck off by the Registrar of Companies."
Clause 1.3 (c) of the DPS shall be read in conjunction with the following note:
"Note: Acquirer 3 was a director in Indovo Foods Private Limited (CIN: U15499KA2009PTC049654), a closely held company. The said company could not file the annual returns within the prescribed due dates and therefore the directors were disqualified for further appointment. Thereafter the said company has been struck off by the Registrar of Companies."

7.2 Relationship between the Acquirers
The relationship between the Acquirers in the given table to be read as Clause 1.8 of the DPS:

Name	Relationship
Mr. M P Satish Babu	Husband of Ms. Sukanya Satish and father of Mr. Sharad M S
Ms. Sukanya Satish	Wife of Mr. M P Satish Babu and mother of Mr. Sharad M S
Mr. Sharad M S	Son of Mr. M P Satish Babu and Ms. Sukanya Satish
Mr. Syed Fahad	Not Related
Mr. Bhavihal Gurusiddappa Channappa	Not Related

7.3 Clause 2.5 of the DPS should be read in conjunction with:
The equity shares of the Target Company are also listed on CSE. However based on the information available on the website of CSE, the equity shares of the Target Company are suspended from trading. Further, no details of trading in the equity shares of the Target Company are available on the website of CSE.

8. Material Updates (after the date of the Detailed Public Statement and included in the Letter of Offer)
In terms of Regulation 16(1) of the SEBI SAST Regulations, the draft Letter of Offer was submitted to SEBI on November 06, 2020 ("Draft Letter of Offer"). SEBI, vide its letter bearing reference no. SEBI/HO/CFD/DCR-2/OW/P/2021/2406/1 dated January 29, 2021 ("SEBI Letter"), issued its comments on the Draft Letter of Offer in terms of Regulation 16(4) of the SEBI SAST Regulations. These comments have been suitably incorporated in the Letter of Offer.
Public Shareholders are requested to note the following key changes to the Draft Letter of Offer as included in the Letter of Offer in relation to the Open Offer:

- The Acquirers have acquired equity shares under Share Purchase Agreement 1 ("SPA1") on December 11, 2020. Suitable disclosures in this regard have been made in Clause 3.1.3 on page 8, Clause 3.1.5 on page 10, Clause 3.2.11 on page 12, Clause 4.1.5 on page 14, Clause 4.2.4 on page 15, Clause 4.3.4 on page 16, Clause 4.4.4 on page 17, Clause 4.5.4 on page 18 and Clause 5.7 on page 21 of the Letter of Offer.
- In respect to the ongoing Scheme of Arrangement between the Target Company and its shareholders and creditors for reducing the Equity share capital of the Target Company, the Hon'ble NCLT has issued directions for issue of notice to regulatory authorities for obtaining their NOC on the Scheme of Arrangement. The same has been disclosed under Clause 3.1.5 on page 10, Clause 5.8 on page 19 and Clause 5.17 on page 21 of the Letter of Offer.
- In compliance with Regulation 24(1) of the SEBI SAST Regulations, Mr. Sharad M S ("Acquirer 2"), Mr. Syed Fahad ("Acquirer 4") and Mr. Bhavihal Gurusiddappa Channappa ("Acquirer 5"), are appointed as Additional Directors on the Board of Directors of the Target Company w.e.f December 11, 2020. Suitable disclosures in this regard have been made under Clause 3.1.13 on page 11, Clause 4.2.3 on page 15, Clause 4.4.3 on page 17 and Clause 4.5.3 on page 18 of the Letter of Offer.
- Details of the Board of Directors of the Target Company has been updated under Clause 5.12 on page 20 of the Letter of Offer as follows:

Sr. No.	Name of Director	DIN	Designation	Date of Appointment
1.	Mr. Syed Fahad	01865406	Additional Director	December 11, 2020
2.	Mr. Channappa Bhavihal Gurusiddappa	07278848	Additional Director	December 11, 2020
3.	Mr. Sharad M S	08987445	Additional Director	December 11, 2020
4.	Mr. Philip Van Bosstraeten	02600487	Director	November 07, 2014
5.	Ms. Priyanka Rajora	08985737	Additional Director	December 11, 2020
6.	Ms. Pooja Jain	08985766	Additional Director	December 11, 2020
7.	Mr. Bharath Venkatesh	09031790	Additional Director	January 18, 2021

Note: The three Acquirers from S. No 1 to 3 have been appointed as directors on the Board of Target Company w.e.f December 11, 2020 in compliance with the provisions the SEBI SAST Regulations. Mr. Shanti Swarup Aggarwal, Mr. Narendra Dattatri Haldawar, Ms. Anisha Agarwal, Mr. Swapan Kumar Majumdar and Mr. Satish Narayana Swamy resigned from the Board of the Target Company w.e.f. December 11, 2020.

- Financial Results for the Quarter Ended September 30, 2020 have been updated under Clause 5.16 on page 20 of the Letter of Offer.
- The Acquirers have deposited 100% of the amount in the Escrow Account. Suitable disclosures have been made under Clause 6.2.2.4 and Clause 6.2.3 on page 24 of the Letter of Offer.
- Details regarding the status of the statutory and other approvals
As on the date of the Letter of Offer, to the best knowledge of the Acquirers, there are no statutory approvals required by the Acquirers, to complete the Underlying Transaction and this Open Offer. However, in case of any further statutory approvals being required by the Acquirers, at a later date, this Open Offer shall be subject to such approvals and the Acquirers shall make the necessary applications for such approvals.
- Revised Schedule of Activities**
The schedule of major activities on page 2 of the Draft Letter of Offer and clause 9 – "Tentative Schedule of Activities" of the DPS stands amended and the revised schedule of major activities pertaining to the Open Offer as mentioned in the Letter of Offer is set forth below:

Nature of Activity	Original Timeline		Revised Timeline	
	Date	Day	Date	Day
Date of the Public Announcement	October 22, 2020	Thursday	October 22, 2020	Thursday
Date of publication of the Detailed Public Statement	October 29, 2020	Thursday	October 29, 2020	Thursday
Date for filing of Draft Letter of Offer with SEBI	November 06, 2020	Friday	November 06, 2020	Friday
Last date of a competing offer	November 23, 2020	Monday	November 23, 2020	Monday
Latest date by which SEBI's observations will be received	December 01, 2020	Tuesday	January 29, 2021	Friday
Identified Date*	December 03, 2020	Wednesday	January 27, 2021	Friday
Last date by which the Letter of Offer will be dispatched to the Eligible Shareholders of the Target Company as on the identified date	December 10, 2020	Thursday	February 03, 2021	Wednesday
Last Date for revising the Offer Price / Offer Size	December 15, 2020	Tuesday	February 04, 2021	Thursday
Last date by which the recommendations of the Committee of Independent Directors of the Target Company will be given and published	December 15, 2020	Tuesday	February 04, 2021	Thursday
Date of publication of Public Announcement for Opening the Offer	December 16, 2020	Wednesday	February 05, 2021	Friday
Date of Commencement of the Tendering Period (Offer Opening Date)	December 17, 2020	Thursday	February 08, 2021	Monday
Date of Closing of the Tendering Period (Offer Closing Date)	December 31, 2020	Thursday	February 22, 2021	Monday
Last date for communicating Rejection / Acceptance and Payment of consideration for accepted equity shares / credit of unaccepted shares	January 14, 2021	Thursday	March 08, 2021	Monday
Last date for issue of post-offer advertisement	January 21, 2021	Thursday	March 16, 2021	Tuesday

* Identified Date is only for the purpose of determining the names of the shareholders as on such date to whom the Letter of Offer will be sent. It is clarified that all the Other Public Shareholders and the Existing Promoter of the Target Company are eligible to participate in this Offer any time during the tendering period of the Offer.

- Other Information:**
11.1 The Acquirers accept full responsibility for the information contained in the Offer Opening Public Announcement cum Corrigendum and shall be jointly and severally responsible for the fulfillment of their obligations laid down in the SEBI SAST Regulations in respect of the Open Offer.
11.2 The Offer Opening Public Announcement cum Corrigendum is expected to be available on the SEBI website (www.sebi.gov.in).

ISSUED FOR AND ON BEHALF OF THE ACQUIRERS BY THE OFFER
SUNDOE
Sundae Capital Advisors Private Limited
SEBI Regn. No.: INM000012494
3rd Floor, C - 11 Community Centre Janak Puri, New Delhi - 110 058
Tel.: +91 11 4914 9740
E-mail: ofn.openoffer@sundaecapital.com
Investor Grievance e-mail id: grievances.mb@sundaecapital.com
Website: www.sundaecapital.com
Contact Person: Anchal Lohia
for and on behalf of Acquirers
Sd/- M P Satish Babu Sd/- Sharad M S Sd/- Sukanya Satish
Sd/- Syed Fahad Sd/- Bhavihal Gurusiddappa Channappa
Place: Bangalore, Date: February 04, 2021